



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 17—फरवरी 23, 2013, शनिवार/माघ 28—फाल्गुन 4, 1934  
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2013, SATURDAY/MAGHA 28—PHALGUNA 4, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा, सेना मुख्यालय (ज्येष्ठ मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष, मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष और सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2000 को भागतः अधिक्रान्त करते हुए जहां तक इसका संबंध मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष और सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष पदों से है, जिनका ऐसे भागतः अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) की साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा में मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष और सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा (मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष और सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष	6* (2013) *कार्यभार आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं [केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष) तक शिथिल की जा सकती है] <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)

(8)

(9)

**आवश्यक :**

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य
2. किसी मान्यताप्राप्त मानचित्र पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव

**वांछनीय :**

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या भूगोल या पृथ्वी विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य

(7)

2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 दबाव, 10500 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 9000 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समरूप 30 शब्द प्रति मिनट)

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

**प्रोन्नति :**

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसा सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

**प्रतिनियुक्ति :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या  
(ii) जो वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण कर रहे हैं, और  
(ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथाअधिकथित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(11)

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता

1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. उप निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. रक्षा मंत्रालय (सेना) (भू वैज्ञानिक अनुभाग साधारण कर्मचारिवृन्द) रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय से उपनिदेशक या समतुल्य की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष	5* (2013) *कार्यभार आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच [केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष) तक शिथिल की जा सकती है]
					<b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)

(8)

(9)

**आवश्यक :**

लागू नहीं होता

दो वर्ष

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा या समतुल्य
2. किसी मान्यताप्राप्त मानचित्र पुस्तकालय में एक वर्ष का अनुभव

**वांछनीय :**

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता जिसमें पुस्तकालय विज्ञान या भूगोल या पृथ्वी विज्ञान में से एक विषय हो।

(7)

2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 दबाव, 10500 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 9000 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समरूप 30 शब्द प्रति मिनट)।

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण : पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 के वेतनमान 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अधीन विहित की गई अर्हताएं और अनुभव है।

(11)

लागू नहीं होता

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि के लिए)

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. उप निदेशक/न्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. रक्षा मंत्रालय (सेना) (भू वैज्ञानिक अनुभाग साधारण कर्मचारिवृन्द) रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय से उप निदेशक या समतुल्य की प्रास्थिति का कोई अधिकारी, रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय से अनुभाग अधिकारी या समतुल्य की प्रास्थिति का अधिकारी —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता

[फा. सं. 61689/मुप्रअ/भर्ती-II]

के. एम. पी. सिंह, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th February, 2013

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Ministry of Defence, General Staff Branch, Army Headquarters, (Senior Map Curator, Map Curator and Assistant Map Curator) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Map Curator and Assistant Map Curator, except as respects things done or omitted to be done before such partial supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Map Curator and Assistant Map Curator in General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), namely :—

539 GI/13-2

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), General Staff Branch (Map Curator and Assistant Map Curator) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

**4. Method of Recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Map Curator	6* (2013)G *Subject to variation dependent on workload etc.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Not exceeding 30 years (Relaxable upto forty years (up to 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

**Note.**—The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p><b>Essential :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree or equivalent from a recognised University.</li> <li>2. Two years experience in any recognised Map Library.</li> </ol> <p><b>Desirable :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree or equivalent from a recognised University in Library Science or Geography or Earth Science.</li> <li>2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.</li> </ol> <p>(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 depressions for each word.)</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Appointing Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits
<p><b>Method of recruitment:</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion :</b></p> <p>Assistant Map Curator in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1900 with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	

(11)

**Deputation :**

Officers belonging to the Central Government or State Government or Union Territory Administration :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  
 (ii) holding posts in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1900 with eight years regular service; and  
 (b) possessing the qualifications and experience as laid down for direct recruits in column 7.

**Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion and confirmation) consisting of :—**

Not applicable.

1. Deputy Chief Administrative Officer, —Chairman  
Office of the Joint Secretary and  
Chief Administrative Officer,  
Ministry of Defence
2. Deputy Director/Senior Administrative —Member  
Officer, Office of the Joint Secretary and  
Chief Administrative Officer,  
Ministry of Defence
3. Officer of the status of Deputy Director or —Member  
equivalent from Integrated Headquarters  
of Ministry of Defence (Army) (Geological  
Section General Staff) Ministry of Defence

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Map Curator	5* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Pay Band-1, ₹ 5200— 20200 plus Grade Pay ₹ 1900	Not applicable	Between 18 to 25 years [Relaxable up to forty years (up to 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates)]



(6)

in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time].

**Note.**—The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)

(8)

(9)

**Essential :**

Not applicable

Two years

1. 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or Institution.
2. One year experience in any recognised Map Library.

**Desirable :**

1. 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or Institution with Library Science or Geography or Earth Science as one of the subjects.
2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.

(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 depressions for each word)

**Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

(10)

(11)

By direct recruitment.

Not applicable

**Note :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
  - (ii) with three years regular service in posts in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1800.
- (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) consisting of :—</b>	Not applicable.
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deputy Director/Senior Administrative Officer Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman</li><li>2. Officer of the status of Deputy Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) (Geological Section General Staff) Ministry of Defence —Member</li><li>3. Officer of the status of Section Officer or equivalent from Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Member</li></ol>	

[ F. No. 61689/CAO/R-II]

K. M. P. SINGH, Dy. Chief Administrative Officer